



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1233]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2019/ फाल्गुन 24, 1940

No. 1233]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2019/ PHALGUNA 24, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2019

का.आ. 1381(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2497 (ई) के तहत विशेष/सीबीआई-1/अपर जिला न्यायालय-III, अर्णाकुलम को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण केरल राज्य पर क्षेत्राधिकार होगा।

और जबकि, श्री एम. नंदकुमार, विशेष न्यायाधीश, (एसपीई/सीबीआई)-1/अपर जिला न्यायाधीश-III/अपर एमएसीटी, अर्णाकुलम, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 13 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. का. आ. 3436 (ई) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 13 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या सा. आ. 3436 (ई) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केरल उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर एतद्वारा श्री के. सत्यन, जिला न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई)-1/अपर जिला न्यायाधीश-III/अपर एमएसीटी, अर्णाकुलम के रूप में, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनआईए]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2019

S.O. 1381(E)—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2497 (E) dated the 15th October, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the SPE/CBI-I/Additional District Court-III, Ernakulam, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Kerala for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri M. Nandakumar, Special Judge (SPE/CBI)-I/Additional District Judge-III/Addl. MACT, Ernakulam, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 3436 (E) dated the 13th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 3436 (E), dated the 13th July, 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Kerala, hereby appoints Sri K. Sathyan, District Judge as Special Judge (SPE/CBI)-I/Additional District Judge-III/Addl. MACT, Ernakulam, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 11011/02/2019/NIA]
PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.